



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार **The Patent Office, Government Of India**
पेटेंट प्रमाण पत्र **Patent Certificate**

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 551136

आवेदन सं. / Application No. 201941036792

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 12/10/2019

पेटेंटी / Patentee Indian Institute of Technology Madras

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s) 1. Dr Vishal V R Nandigana 2. D. Ananyananda

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित **MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PHYSICAL TRANSPORT PHENOMENON IN THERMAL MANAGEMENT** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अक्टूबर 2019 के बारहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PHYSICAL TRANSPORT PHENOMENON IN THERMAL MANAGEMENT** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 12th day of October 2019 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



(Signature)
इकांत की शंख

अनुदान की तारीख : 26/09/2024
Date of Grant : 26/09/2024

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अक्टूबर 2021 के बारहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 12th day of October 2021 and on the same day in every year thereafter.

Controller of Patents